

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012020-215486
CG-DL-E-16012020-215486

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]
No. 16]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2020/पौष 26, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2020/PAUSHA 26, 1941

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

सं. 37/1/(III)/2020/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 15 जनवरी, 2020 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा लोक सभा को शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ।

15 जनवरी, 2020

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति।"

स्नेहलता श्रीवास्तव, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January, 2020

No. 37/1/(III)/2020-T.—The following order by the President dated the 15th January, 2020 is published for general information: —

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Friday, the 31st January, 2020 at 11.00 A.M.

January 15, 2020

RAM NATH KOVIND
PRESIDENT.”

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Secy. General